

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 22—जून 28, 2019 (आषाढ़ 1, 1941)=

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22—JUNE 28, 2019 (ASADHA 1, 1941)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

भाग III—खण्ड 4=

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(बैंकिंग विनियमन विभाग)

मुम्बई—400001, दिनांक 27 मई 2019

बैविवि.एनबीडी.(पीबी-आईपीपीबी).सं.9980/16.13.215/2018-2019—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को शामिल करने का निदेश देता है:

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड
पोस्ट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग
मार्केट रोड, नई दिल्ली-110001

लिलि वडेशा
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF BANKING REGULATION)

Mumbai-400001, the 27th May 2019

DBR.NBD.(PB-IPPB).No.9980/16.13.215/2018-2019—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

India Post Payments Bank Limited,
Post Office, Speed Post Center Building,
Market Road, New Delhi-110001

LILY VADERA
Executive Director